

केन्द्रीय विद्यालयं हैदराबाद विश्वविद्यालय

UNIVERSITY OF HYDERABAD CAMPUS,-

HYDERABAD :500 046 (T.S.)

कायोलय प्रयोग के लिए / FOR OFFICE USE ONLY

REG. NO.

Dept. Cat. No. of Trs. BPL/OBC/EWS SGC

क्रम सं. / S.No.			1 1		
अभिभावक के To be filled पंजीकरण के लिए कक्षा / Registration for class 1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में) Name of child In full (in Capital letters)	ale	rent	िंग / TI onth	of th	<u></u>
3.बच्चे का रक्त समूह (Rh फैक्टर सहित) Blood Group of the child (with Rh factor)					
4. बच्चे की संबन्धित श्रेणी / The category to which chil सामान्य श्रेणी अनु, जाति अनु,जनजाति ओ.बी.सी आर्थिक कमजो Gen. Cat SC ST OBC EW यदि बच्चा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग / इकलौती कन्या यदि हाँ तो प्रमाण — पत्र If the child belongs to (SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabthen please attach relevant certificate.	श्रें वर्ग S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	से / आर्थि रें। Category	र्से संधान ff. Abled र्थिक रूप से	SG Child	
5. माता-पिता का विवरण / Details of Mother/ Father	माता / Mot	her	To a to	पिता / Father	AATA
(i) नाम(स्पष्ट शब्दों में) / Name (in Capital letters)	orthon II	en Gro	00 2	1 , 2 5 5 1	7,000
(ii) राष्ट्रीयता / Nationality	7	3' J 15-		0 - 17	
(iii) व्यवसाय / Occupation					
(м) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष Name of Office and full address and telephone number					1924 u 1 34
(v) पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित) Full present residential address(with Address Proof)					
Mobile numbers Email ID:		10		val turi vierni.	

(vi) विद्यालय से आवास की दूरी (कि.मी में)। दूरी के लिए माता—पिता / अभिभावक का सपथ—पत्र मान्य है। आवास प्रमाण—पत्र देना आवश्यक है। Distance from KV(in km) Undertaking from parents is acceptable for distance. Proof of Residence is compulsory.	माता / Mother	पिता / Father
(vii) मूल वेतन / Basic Pay		
(viii) 31—3—20 तक पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या No. of transfers during last 7 years as on	To Applicate to application	
(IX) Children and grandchildren of serving and retired UOH employees (Write 1) (Please refer Part A 3(B) of Admission guidelines 2020-21 For Central Government (Write 2) For Central Autonomous bodies/PSUs (Write 3) For State Government (Write 4) For State Government autonomous/PSUs (Write 5) For all others (including Private employees) (Write 6) Grandchildren of UOH employees have to produce Service certificate of the grand parent	The second secon	
(x) कर्मचारी कोड यदि है तो/ Employee Code (if any)	ा इस्त्री कि स्थापित है। 	e Sythy I , We with a site of
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ I certify that the above entries are true to th	ne best of my knowledge. माता / 1 Signature पूरा नाम / Full Name	पेता / अभिभावक के हस्ताक्षर e of Mother / Father / Guardian
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ I certify that the above entries are true to the दिनाक / Date:	ne best of my knowledge. माता / 1 Signature	पेता / अभिभावक के हस्ताक्षर e of Mother / Father / Guardian
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ I certify that the above entries are true to the local distribution of the lo	माता / 1	पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर e of Mother / Father / Guardian IFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्ष ा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ज
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ I certify that the above entries are true to the light of the li	माता / 1	पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर e of Mother / Father / Guardian IFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्ष ा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जे
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ I certify that the above entries are true to the light of the li	माता / f Signature पूरा नाम / Full Name पूरा नाम / Full Name प्रमाण-पत्र / SERVICE CERT तरकार / Central Govt.) कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय कन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था / अथव त हैं, के नियमित कर्मचारी हैं तथा र	पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर e of Mother / Father / Guardian IFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्ष ा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जे उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं /
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ I certify that the above entries are true to the light of the li	माता / f Signature पूरा नाम / Full Name पूरा नाम / Full Name प्रमाण-पत्र / SERVICE CERT तरकार / Central Govt.) कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय कन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था / अथव त हैं, के नियमित कर्मचारी हैं तथा र	पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर e of Mother / Father / Guardian IFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्ष ा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जे उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं /
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ I certify that the above entries are true to the local distribution of the lo	ne best of my knowledge. माता / f Signature पूरा नाम / Full Name पूरा नाम / SERVICE CERT सरकार / Central Govt.) कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय कर्न्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था / अथव ता हैं, के नियमित कर्मचारी हैं तथा र	पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर e of Mother / Father / Guardian IFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जे उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं /
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ I certify that the above entries are true to the local distribution of the lo	माता / fill Signature पूरा नाम / Full Name पूरा नाम / Full Name पूरा नाम / SERVICE CERT तरकार / Central Govt.) कार्यरत हैं । वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय कर्न्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था / अथव ता हैं, के नियमित कर्मचारी हैं तथा र	पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर e of Mother / Father / Guardian IFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्ष ा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जे उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं /
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ I certify that the above entries are true to the state of the st	माता / fill Signature पूरा नाम / Full Name पूरा नाम / Full Name पूरा नाम / SERVICE CERT तरकार / Central Govt.) कार्यरत हैं । वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय कर्न्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था / अथव ता हैं, के नियमित कर्मचारी हैं तथा र	पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर e of Mother / Father / Guardian IFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्ष ा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जे उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं /
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ I certify that the above entries are true to the local distribution of the lo	माता / fill Signature पूरा नाम / Full Name पूरा नाम / Full Name पूरा नाम / SERVICE CERT तरकार / Central Govt.) कार्यरत हैं । वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय कर्न्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था / अथव ता हैं, के नियमित कर्मचारी हैं तथा र	पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर e of Mother / Father / Guardian IFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्ष ा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जे उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं /
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ I certify that the above entries are true to the state of the st	me best of my knowledge. #ाता / f Signature पूरा नाम / Full Name ## प्रमाण-पत्र /SERVICE CERT स्कार / Central Govt.) कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय कर्न्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था / अथव ता हैं, के नियमित कर्मचारी हैं तथा र ## GISPG/CISF/Central Govt./Auto htral Govt. and his/her services are कार्यालय विवास सेवा (नाम, पद और वि	पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर e of Mother / Father / Guardian IFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जे उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं /
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ I certify that the above entries are true to the light of the li	माता / f Signature पूरा नाम / Full Name पूरा नाम / Full Name पूरा नाम / SERVICE CERT रिकार / Central Govt.) कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय कर्न्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था / अथव ताहें, के नियमित कर्मचारी हैं तथा र	पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर e of Mother / Father / Guardian IFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जे उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं /

सेवा प्रमाण-पत्र /SERVICE CERTIFICATE (राज्य सरकार / <u>State Govt.</u>) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं / पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थनांतरणीय हैं । Certified that Shri/Smt __ is Permanently Working in the office/ Ministry of _ and his/her services are non transferable / transferable anywhere in State. कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर Round Office Seal (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित) स्थान / Place __ Signature of the Head of the Office दिनांक/ Date ____ With Name, Designation and Office stamp कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या Complete address and Telephone No. of Office स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (नाम<u>)</u> (रैंक / पदनाम) (कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (31.3. 2016 तक) में एक स्थन से दूसरे स्थान पर मेरे 🗖 (अंको व शब्द में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं। _____ (rank/ designation) _ (<u>Name)</u>__ (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.20) I have been transferred _ times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-दिनांक / Date ठहरने की क.स. कार्यालय/ यूनिट स्थान रेंक / पदनाम अवधि DD/ MM/ YY DD/ MM/ YY आदेश संख्या Period of stay Order No & Date Rank / Designation से / From तक / To S.No. Office/Unit Place -1. 2. 3 4. 5. 6. मैं जानता / जानती हूँ कि यदी उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अयोग्य हो जाएगा। I know that, if the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya. माता / पिता के हस्ताक्षर SIGNATURE OF PARENT Name: Date:

4	ul Karter Balle und 1990 (1990) (1990) (1990)	
में	(नाम)	(रैंक/पदन
A W. D. A. C. HRUS	(कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित व	हरता / करती हूँ कि उपरो
विवरण को कार्यालय – आलेखों से जाँच लि	ाया गया हैं व सही पाया गया हैं ।	
d total 2001 — 200 E governing very se	(<u>name</u>)	(rank/designation
of	(unit/department) hereby certify that the	particulars given in abo
have been authenticated by the records	held in the office and found correct.	
্ াহিন্দালিকত্তন চন্দ্ৰাকান্ত্ৰাকান		
		911 - 1911
		ध्यक्ष के हस्ताक्षर
Round Office Seal		र्गालय की मोहर सहित) e Head of the Office
स्थान / Place	Nail St. 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	
दिनांक/ Date	(With Name, Design	ation and Office stamp)
कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या		
Complete address and Telephone No. of Office	NA RESERVE CHARGES	
टेप्पणि / Note-	10.10	
एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम र	छह मास होनी चाहिए	
ह्या १०० व्हा प्राप्त कालीन मृत्यु ।	प्रमाण–पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF	and the state of t
सेवा — कालीन मृत्यु	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए /Only for Central Govt E	and the state of t
सेवा — कालीन मृत्यु	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E	mployees)
सेवा — कालीन मृत्यु	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E	mployees)
	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E	mployees) स्वर्गीय
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के माणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र मी/ श्रीमती कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E	mployees) स्वर्गीर
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के गमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र मी/ श्रीमती कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था ।	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E के पुत्र / पुत्री हैं जो थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अर्वा	mployees) स्वर्गीय ध में दिनांक
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के माणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र मी/ श्रीमती कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E के पुत्र / पुत्री हैं जो व थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अर्वा	mployees) स्वर्गीय ध में दिनांक
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के प्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र श्रीमती कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । certified that Master/Miss	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E के पुत्र / पुत्री हैं जो वे थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अर्वा	mployees) स्वर्गीय धे में दिनांक _ is the son/daughter o
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के ामाणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र ग्री/ श्रीमती कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । sertified that Master/Miss ate Sh./Smt.	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E के पुत्र / पुत्री हैं जो थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अर्वा who was regular employee of _	mployees) स्वर्गीय धे में दिनांक _ is the son/daughter o
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के माणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र ग्री/ श्रीमती कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । ertified that Master/Miss ate Sh./Smt.	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E के पुत्र / पुत्री हैं जो वे थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अर्वा	mployees) स्वर्गीर धे में दिनांक _ is the son/daughter o
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के माणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र ग्री/ श्रीमती कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । ertified that Master/Miss ate Sh./Smt.	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E के पुत्र / पुत्री हैं जो थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अर्वा who was regular employee of _	स्वर्गीर धे में दिनांक _ is the son/daughter o
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के माणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र ग्री/ श्रीमती कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । ertified that Master/Miss ate Sh./Smt.	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E के पुत्र / पुत्री हैं जो थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अर्वा who was regular employee of _	स्वर्गीर धे में दिनांक _ is the son/daughter o
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के ामाणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र ग्री/ श्रीमती कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । sertified that Master/Miss ate Sh./Smt.	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E के पुत्र / पुत्री हैं जो थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अर्वा who was regular employee of _	mployees) स्वर्गीर धे में दिनांक _ is the son/daughter o
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के ामाणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र ग्री/ श्रीमती कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । sertified that Master/Miss ate Sh./Smt.	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E के पुत्र / पुत्री हैं जो थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अर्वा who was regular employee of	स्वर्गीय ध में दिनांक is the son/daughter o
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के ामाणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र श्री / श्रीमती कार्यालय / विभाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । sertified that Master/Miss ate Sh./Smt Dffice/Department) and he/she died in ha	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E के पुत्र / पुत्री हैं जो थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अर्वा who was regular employee of कार्यालय अध्यक्ष	स्वर्गीय ध में दिनांक is the son/daughter o (date).
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के ामाणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र ग्री / श्रीमती कार्यालय / विभाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । sertified that Master/Miss ate Sh./Smt. Office/Department) and he/she died in ha	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E के पुत्र / पुत्री हैं जो थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अर्वा who was regular employee of कार्यालय अध्यक्ष (नाम, पद और कार्याल	mployees) स्वर्गीर ध में दिनांक is the son/daughter o (date). स के हस्ताक्षर ाय की मोहर सहित)
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के प्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र श्री / श्रीमती कार्यालय / विभाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । certified that Master/Miss ate Sh./Smt.	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E के पुत्र / पुत्री हैं जो थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अर्वा who was regular employee of markets (while in service) on कार्यालय अध्यक्ष (नाम, पद और कार्याल Signature of the H	स्वर्गीय ध में दिनांक is the son/daughter o (date). त के हस्ताक्षर य की मोहर सहित) ead of the Office
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार के ामाणित किया जाता है कि कुमार / कुमार्र ती / श्रीमती कार्यालय / विभाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । sertified that Master/Miss ate Sh./Smt. Office/Department) and he/she died in ha	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIF कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt E के पुत्र / पुत्री हैं जो थे /थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अर्वा who was regular employee of कार्यालय अध्यक्ष (नाम, पद और कार्याल	स्वर्गीय ध में दिनांक is the son/daughter o (date). त के हस्ताक्षर य की मोहर सहित) ead of the Office